

प्रेस नोट दिनांक-18.08.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 56/22 धारा 363/366/376/120बी भादवि0 व ¾ पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त 1. हसनतुम पत्नी इस्लाम 2. वसीमा पत्नी सगीर निवासीगण साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी संजीव सोनी
3. आरक्षी दिलीप कुमार
4. महिला आरक्षी रानी देवी

(2). दिनांक -17/18.08.2022 की रात्रि में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा थाना राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाना कार्यालय में जनसुनवाई रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, रजिस्टर नं0 08 एवं अन्य रजिस्ट्रों का अवलोकन कर अद्यावधिक करने हेतु निर्देश दिये गये। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आगन्तुक रजिस्टर को चेक कर डियूटी में नियुक्त महिला आरक्षी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा थाना परिसर की साफ-सफाई हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह, पीआरओ श्री वीर प्रताप सिंह चौहान एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनांक 18.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में वरि0उ0नि0 श्री रामवीर थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. बन्टी दुबे उर्फ पवन दुबे पुत्र शिवप्रसाद निवासी बेलावार सुरवल थाना सरायं इनायत जनपद प्रयागराज को 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर 2. संदीप पाल पुत्र महेश पाल निवासी उपरोक्त को 01 अदद तमंचा 315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ तथा 3. धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी उपरोक्त को 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. 01 अदद पिस्टल 32 बोर

2. 01 अदद तमंचा 315 बोर
3. 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री रामवीर थाना रैपुरा
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार
3. आरक्षी दिलीप कुमार
4. आरक्षी धर्मेन्द्र प्रजापति

(5). आज दिनांक 17.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(6). दिनांक-17.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।